

PART-I (भाग-I)

A

BOOKLET SERIES/ पुस्तिका सीरीज़

DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO
जब तक कहा न जाए इस प्रश्न पुस्तिका को न खोलें।

Important: Please refer to your admit card while filling in details in this Question Booklet and in the OMR Answer Sheet.
महत्वपूर्ण: कृपया अपने प्रवेश पत्र को देखकर प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक में विवरण भरें।

The written test structure is as given below:

लिखित परीक्षा की संरचना नीचे दी गई है :

Paper पेपर	Test Components परीक्षण घटक	Question Nos. प्रश्न-संख्या	No. of Questions कुल प्रश्न	Questions to be attempted (Marks) कुल प्रश्न हल करने हैं (अंक)	Answers to be marked/ written on उत्तर किस पर लिखना है
Part-I भाग-I	Section-A : Objective Type खण्ड-A : वस्तुनिष्ठ टाइप	1-30	30	30 (30 marks/अंक)	OMR उत्तर पत्रक
Part-II भाग-II	Section-B : Subjective Type खण्ड-B : आत्मनिष्ठ टाइप	1-7	7	5 (70 marks/अंक)	Question-cum- Answer booklet प्रश्न-सह उत्तर पुस्तिका

PLEASE READ INSTRUCTIONS ON THE BACK COVER CAREFULLY.

पिछले कवर पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़िए।

Use Blue/Black Ball Point pen to fill in the following particulars.

कृपया निम्नलिखित जानकारियों को भरने के लिए नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।

Name / नाम:

Roll No / अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature/ हस्ताक्षर:

This Question Booklet and OMR Answer Sheet are to be returned on completion of the test.
परीक्षा पूरी होने पर यह प्रश्न पुस्तिका तथा ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक लौटा दें।

खण्ड-A : वस्तुनिष्ठ टाइप

1. 'नागौरी' _____ राज्य में पाया जाने वाला एक हिन्दू और मुसलमान समुदाय है।
(1) राजस्थान (2) छत्तीसगढ़ (3) तेलंगाना (4) मध्य प्रदेश
2. पुरुषों की विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 2018 किस देश ने जीती?
(1) ऑस्ट्रेलिया (2) पाकिस्तान (3) बेल्जियम (4) अर्जेंटीना
3. निम्नलिखित में से क्या कॉफी के एक प्रतिस्थापन के रूप में (बदले में) प्रयोग किया जाता है?
(1) हिकोरी (2) चिकोरी (3) कोकम (4) इमली
4. 'डिज़ाइनर बेबीज' शब्द का प्रयोग _____ का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
(1) बच्चों के लिए कम्प्यूटर गेम (2) बच्चों के वस्त्रों
(3) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) (4) मानव भ्रूण की आनुवंशिक इंजीनियरी
5. प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रूडयार्ड किपलिंग ने भारत में _____ के रूप में अपनी युवावस्था व्यतीत की।
(1) ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक (2) एक अखबार के रिपोर्टर
(3) अफीम के एक व्यापारी (4) अंग्रेजी के एक शिक्षक
6. अजंता की गुफाओं की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियां अंकित हैं?
(1) पंचतंत्र (2) कथासरित्सागर (3) हितोपदेश (4) जातक कथाएं
7. डॉ. विलियम ए. एस. रामचंद्रन विज्ञान के किस विषय से जुड़े हैं?
(1) अंतरिक्ष विज्ञान (2) कणिका भौतिकी (3) गणित (4) तंत्रिका विज्ञान
8. भीमबेतका _____ के लिए प्रसिद्ध है।
(1) भित्ति चित्रकारी (2) पत्थर शिल्पकला
(3) प्रागैतिहासिक गुफा पेंटिंग (4) बौद्ध विहारो
9. किस वर्ष चार भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए थे?
(1) 1990 (2) 1995 (3) 1996 (4) 1999
10. भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे?
(1) सी वी रमण (2) रवीन्द्रनाथ टैगोर
(3) हरगोविंद खुराना (4) अमर्त्य सेन

Section-A : Objective Type

1. The 'Nagori' are a Hindu and Muslim community found in the state of
(1) **Rajasthan.** (2) Chhattisgarh. (3) Telangana. (4) Madhya Pradesh.
2. Which team won the 2018 Men's Hockey World Cup?
(1) Australia (2) Pakistan (3) **Belgium** (4) Argentina
3. Which one of the following is used as a coffee substitute?
(1) Hickory (2) **Chicory** (3) Kokum (4) Tamarind
4. 'Designer Babies' is a term used to describe
(1) Computer Games for Children. (2) Children's Clothing.
(3) In-Vitro Fertilization. (4) **Genetic Engineering of human embryos.**
5. The famous English writer Rudyard Kipling spent his youth in India as a/an
(1) soldier of the East India Company. (2) **reporter for a newspaper.**
(3) opium trader. (4) English teacher.
6. Which of these stories is depicted on the walls of the Ajanta Caves?
(1) Panchatantra (2) Kathasaritasagar
(3) Hitopadesa (4) **Jatakas**
7. Dr Vilayanur S Ramachandran is associated with which scientific discipline?
(1) Space Science (2) Particle Physics
(3) Mathematics (4) **Neuro Science**
8. Bhimbetka is famous for
(1) Mural Paintings. (2) Stone Sculptures.
(3) **Prehistoric cave paintings.** (4) Buddhist Viharas.
9. In which year were 4 (four) Bharat Ratna awards given?
(1) 1990 (2) 1995 (3) 1996 (4) **1999**
10. Who was the India's first Nobel Prize winner?
(1) CV Raman (2) **Rabindranath Tagore**
(3) Har Gobind Khorana (4) Amartya Sen

11. MODEM का क्या अर्थ है?
- (1) मेमरी एण्ड डिमॉन्सट्रेशन (2) मॉडुलेशन एण्ड डिमॉडुलेशन
(3) मॉडुलेशन एण्ड डिकोडिंग (4) मास्टर डिकोडर
12. किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है?
- (1) मेथेन (2) हेराफ्लूरोईथेन
(3) ओजोन (4) नाइट्रस ऑक्साइड
13. तीस्ता नदी प्रवाहित होती है :
- (1) सिक्किम से बांग्लादेश की ओर (2) गुवाहाटी से बांग्लादेश की ओर
(3) गंगोत्री से बांग्लादेश की ओर (4) इनमें से कोई नहीं
14. 'विंग्स ऑफ फायर' _____ की आत्मकथा है।
- (1) डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम (2) नेल्सन मंडेला
(3) जॉर्ज डब्ल्यू बुश (4) फिडेल कास्ट्रो
15. भारत में राज्यों की संख्या है :
- (1) 29 (2) 28 (3) 25 (4) 24
16. भारत की पहली सवाक् फिल्म 'आलम आरा' वर्ष _____ में बनी थी।
- (1) 1931 (2) 1915 (3) 1955 (4) 1938
17. ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं :
- (1) भानु अथैया (2) सत्यजीत राय
(3) ए आर रहमान (4) रसूल पूकुट्टी
18. निम्नलिखित में से किसका स्क्रीनप्ले(पटकथा) विजय तेंदुलकर ने लिखा है?
- (1) अंकुश (2) अंकुर
(3) अर्धसत्य (4) कोरस
19. निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मूल स्क्रीनप्ले(पटकथा) के लिए अकादमी पुरस्कार जीता?
- (1) शोगर्ल्स (2) फार्गो
(3) टाइटेनिक (4) द गॉडफादर
20. सत्यजीत राय की निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीता है?
- (1) चारूलता (2) गोपी गाएन बाघा बाएन
(3) सीमाबद्ध (4) शतरंज के खिलाड़ी

11. What does MODEM stand for?
(1) Memory and Demonstration (2) **Modulation and Demodulation**
(3) Modulation and Decoding (4) Master Decoder
12. Which gas is known as Laughing Gas?
(1) Methane (2) Herafluoroethane
(3) Ozone (4) **Nitrous Oxide**
13. Teesta River flows from
(1) **Sikkim to Bangladesh.** (2) Guwahati to Bangladesh.
(3) Gangotri to Bangladesh. (4) None of these
14. 'Wings of Fire' is the autobiography of
(1) **Dr APJ Abdul Kalam.** (2) Nelson Mandela.
(3) George W. Bush. (4) Fidel Castro.
15. The number of states in India is _____.
(1) **29** (2) 28 (3) 25 (4) 24
16. The first Indian sound film 'Alam Ara' was made in the year _____.
(1) **1931** (2) 1915 (3) 1955 (4) 1938
17. The first Indian to win an Oscar Award was
(1) **Bhanu Athaiya.** (2) Satyajit Ray.
(3) AR Rahman. (4) Resul Pookutty.
18. Which one of the following screenplays is written by Vijay Tendulkar?
(1) Ankush (2) Ankur
(3) **Ardh Satya** (4) Chorus
19. Which of the following films has won the Academy Award for Best Original Screenplay?
(1) Showgirls (2) **Fargo**
(3) Titanic (4) The Godfather
20. Which of the following films of Satyajit Ray has not won the National Award for Best Feature Film?
(1) Charulata (2) Goopy Gyne Bagha Byne
(3) Seemabaddha (4) **Shatranj Ke Khilari**

21. निर्देशक के रूप में दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म थी :
- (1) आलम आरा (2) राजा हरिश्चंद्र
(3) सेतु बंधन (4) संत तुकाराम
22. फिल्म 'अपूर संसार' में अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी?
- (1) सौमित्र चटर्जी (2) पंकज मलिक
(3) प्रसन्नजीत चटर्जी (4) उत्तम कुमार
23. 'राशोमोन' फिल्म के निर्देशक हैं :
- (1) यासीजीरो ओजू (2) अकीरा कुरोसावा
(3) योशीतारों नोमूरा (4) आंग ली
24. 'मीज़ां सीन' शब्द की उत्पत्ति _____ से हुई है।
- (1) सिनेमा (2) डांस (नृत्य)
(3) उपन्यास (4) रंगमंच (थिएटर)
25. निम्नलिखित में से किसने फीचर फिल्मों के लिए स्क्रीनप्ले(पटकथा) लिखे हैं?
- (1) एल के आडवाणी (2) एम. करूणानिधि
(3) ई एम एस नंबूदिरिपाद (4) बाला साहब ठाकरे
26. गुरुदत्त की फिल्म 'प्यासा' के गीतों के बोल किसने लिखे थे?
- (1) मजरूह सुल्तानपुरी (2) साहिर लुधियानवी
(3) कैफ़ी आजमी (4) आनंद बख़्शी
27. निम्नलिखित में से किस ने मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म 'भुवन शोम' में अभिनय किया है?
- (1) शबाना आजमी (2) स्मिता पाटिल
(3) श्रीला मजुमदार (4) सुहासिनी मूले
28. फिल्म 'बाहुबली' के प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं :
- (1) तोट्टा तरणी (2) साबू सिरिल
(3) राम कृष्णा और मौनिका (4) सुरेश सेल्वाराजन
29. भारत की पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है :
- (1) एक, अनेक और एकता (2) गायब आया
(3) किट्टू (4) मोटू पतलू
30. प्रदर्शन अवधि (समय) की दृष्टि से भारत में बनी सबसे लंबी फिल्म है :
- (1) थावामी थावामिरुधु (2) मेरा नाम जोकर
(3) एल ओ सी कारगिल (4) पार्थिवन कनावू

21. Dadasaheb Phalke's first film as Director was
 (1) Alam Ara. (2) **Raja Harishchandra.**
 (3) Setu Bandhan. (4) Sant Tukaram.
22. Who played the role of Apu in the film 'Apu Sansar'?
 (1) **Soumitra Chatterjee** (2) Pankaj Mullick
 (3) Prosenjit Chatterjee (4) Uttam Kumar
23. Director of the film 'RASHOMON' is _____.
 (1) Yasujiro Ozu (2) **Akira Kurosawa**
 (3) Yoshitaro Nomura (4) Ang Lee
24. The origin of the term 'Mise-en-Scene' is from
 (1) Cinema. (2) Dance.
 (3) Novel. (4) **Theater.**
25. Who among the following had written screenplays for feature films?
 (1) L K Advani (2) **M Karunanidhi**
 (3) EMS Namboodripad (4) Balasaheb Thackeray
26. The lyrics for the songs in Guru Dutt's film 'PYAASA' were written by
 (1) Majrooh Sultanpuri. (2) **Sahir Ludhianvi.**
 (3) Kaifi Azmi. (4) Anand Bakshi.
27. Who amongst the following had acted in the film 'Bhuvan Shome' directed by Mrinal Sen?
 (1) Shabana Azmi (2) Smita Patil
 (3) Sreela Mazumdar (4) **Sahasini Mulay**
28. The production designer of the film 'Bahubali' is
 (1) Thotta Tharani. (2) **Sabu Cyril.**
 (3) Rama Krishna and Mounika. (4) Suresh Selvarajan.
29. Which is the first serialized animation film in India?
 (1) Ek, Anek aur Ekta (2) **Ghayab Aya**
 (3) Kittu (4) Motu Patlu
30. Which is the longest film ever made in India by running time?
 (1) **Thavami Thavamirurdhu** (2) Mera Naam Joker
 (3) LOC Kargil (4) Parthiban Kanavu

INSTRUCTIONS TO CANDIDATE / परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. Please do not open this Question Booklet until asked to do so.
2. Fill up the necessary information in the space provided on the cover of Question Booklet and the OMR Answer-Sheet before commencement of the test.
3. **The duration of the complete test Part-I (Section-A) & Part-II (Section-B) is 180 minutes.**
4. Please check for completeness of the Question Booklet immediately after opening.
5. There are **30 objective type questions in Part-I (Section-A) which are to be attempted.**
6. In case of any ambiguity in translation, the English version will be deemed authentic.
7. Each question has four answer options marked (1), (2), (3) and (4).
8. Objective type Answers are to be marked on the OMR Answer-Sheet, which is provided separately.
9. Choose the most appropriate answer option and darken the circle/oval completely, corresponding to (1), (2), (3) or (4) against the relevant question number.
10. Use only **Blue/Black Ball Point Pen** to darken the circle/oval for answering.
11. Please do not darken more than one circle/oval against any question, as scanner will read such marking as wrong answer.
12. Once a/an circle/oval is darkened as answer to the question, it is final. Answer option once darkened cannot be changed.
13. **All objective type questions carry equal marks. There is no negative marking.**
14. Rough work, if any, is to be done on the Question Booklet only. No separate sheet will be provided/used for Rough Work.
15. **Calculator, Mobile, etc., are not permitted inside the examination hall.**
16. Candidates seeking, receiving and/or giving assistance during the test will be disqualified.
17. Appropriate civil/criminal proceedings will be instituted against the candidate taking or attempting to take this Question Booklet or part of it outside the examination hall.
18. The right to exclude any question(s) from final evaluation rests with the testing authority.
19. Do not seek clarification on any item in the question booklet from the test invigilator. Use your best judgment.

1. जब तक कहा न जाये इस प्रश्न पुस्तिका को न खोलें।
2. परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पुस्तिका तथा ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के आवरण पर दिये गये स्थान पर आवश्यक सूचना भरें।
3. परीक्षा का कुल समय भाग-I (खण्ड-A और भाग-II (खण्ड-B) 180 मिनट है।
4. प्रश्न-पुस्तिका खोलने के तुरन्त बाद जांच कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका पूरी है।
5. इसमें कुल 30 वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न भाग-I (खण्ड-A) हैं जिन्हें हल करना है।
6. यदि अनुवाद में कोई अस्पष्टता हो, तो अंग्रेजी पाठ सही माना जाएगा।
7. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं जिन पर (1), (2), (3) और (4) अंकित हैं।
8. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर अलग से दिये गये ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर अंकित करें।
9. सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें तथा सम्बन्धित प्रश्न के सामने दिये गये तदनु रूप विकल्प के लिए (1), (2), (3) या (4) के गोले/अंडाकृति को पूरी तरह से काला करें।
10. उत्तर देने के लिए गोले/अंडाकृति को काला करने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
11. किसी प्रश्न के सामने एक से अधिक गोले/अंडाकृति को काला न करें, क्योंकि स्कैनर उस निशान को गलत उत्तर पढ़ेगा।
12. एक बार गोले/अंडाकृति को प्रश्न के उत्तर के रूप में अंकित कर दिया गया तो वह अंतिम होगा। उत्तर विकल्प एक बार अंकित करने के बाद बदला नहीं जा सकता।
13. सभी वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नों के समान अंक है। ऋणात्मक अंकन नहीं है।
14. यदि कोई कच्चा काम करना है तो वह केवल प्रश्न पुस्तिका पर ही करें। कच्चे काम के लिए कोई अलग से शीट नहीं दी जाएगी/प्रयोग में नहीं लायी जाएगी।
15. कैल्कुलेटर, मोबाइल आदि परीक्षा हॉल के अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं है।
16. अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
17. इस प्रश्न-पुस्तिका या इसके किसी भाग को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाने या ले जाने की कोशिश करने वाले परीक्षार्थी की परीक्षार्थी-पात्रता को रद्द करने के अलावा उसके विरुद्ध समुचित दीवानी/फौजदारी कार्यवाही की जाएगी।
18. अंतिम मूल्यांकन से किसी प्रश्न को निकाल देने का अधिकार परीक्षा प्राधिकारी के हाथ में है।
19. प्रश्न पुस्तिका में किसी भी वस्तु पर जांच अन्वीक्षक से स्पष्टीकरण न मांगें। अपने विवेक का प्रयोग करें।

This Question Booklet and OMR Answer Sheet are to be returned on completion of the test.

परीक्षा पूरी होने पर यह प्रश्न पुस्तिका तथा ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक लौटा दें।